



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

सं० 58] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 1981/फाल्गुन 25, 1902
No. 58] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 1981/PHALGUNA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1981

विषय :—व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद का
गठन

सं. 3(1)/80-नि. नी.—सरकार के वाणिज्य मंत्रालय संकल्प सं. 6/8/75-ए. डी. सी. दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के अधीन 1 अक्टूबर, 1976 से व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया था और संकल्प सं. 1/2/76-ए. डी. सी., दिनांक 22 जनवरी, 1977 के अधीन सरकार ने 1 जनवरी, 1977 से दो वर्षों की अवधि के लिए व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया था। 1978 में यह विनिश्चय किया गया कि व्यापार बोर्ड तथा व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उनके स्थान पर व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद नामक एक संघत निकाय गठित किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि हों तथा ऐसे व्यक्ति हों जो बहुत समय से व्यापार में हों और जो वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों। तदनुसार व्यापार सम्बन्धी एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद 15 फरवरी, 1978 से गठित की गई। परिषद की कार्यविधि समाप्त होने के परिणामस्वरूप व्यापार सम्बन्धी एक नई केन्द्रीय सलाहकार परिषद 13 मार्च, 1981 से पुनर्गठित की गई है।

2. व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद के विचारार्थ विषय, गठन आदि निम्नोक्त प्रकार होंगे :—

विचारार्थ विषय

व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद सरकार को इनसे सम्बन्धित विषयों पर सलाह देगी :—

- (1) निर्यात तथा आयात नीति तथा कार्यक्रम ;
- (2) आयात तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रणों का संचालन
- (3) वाणिज्यिक सेवाओं का संगठन तथा विकास; और
- (4) निर्यात उत्पादों का संगठन तथा विस्तार।

गठन

3. केन्द्रीय सलाहकार परिषद में 29 सदस्य होंगे जैसा कि संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है। इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष के रूप में वाणिज्य मंत्री द्वारा की जाएगी और उनकी अनुप-परिस्थिति में उपाध्यक्ष के रूप में वाणिज्य राज्य मंत्री द्वारा की जाएगी। परिषद के सदस्य 13 मार्च, 1981 से दो वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

4. परिषद को अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा। परिषद का अध्यक्ष समय-समय पर परिषद

की बैठक में ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, आमंत्रित कर सकता।

5. परिषद् का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन यह भारत में किसी भी अन्य स्थान पर अपनी बैठक आयोजित कर सकता।

6. परिषद् सामान्यतः वर्ष में दो बैठकें करेगी।

7. आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक इस परिषद् के सदस्य-सचिव होंगे।

आवेश

आवेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, परिषद् के सदस्य, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री का कार्यालय, योजना आयोग भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा भारत की सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाए।

यह भी आवेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनुसूची

व्यापार संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्य

वर्ग 1 :

- | | |
|--|-----------|
| 1. वाणिज्य मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. राज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्रालय | उपाध्यक्ष |
| 3. सदस्य-सचिव, योजना आयोग
(डा. मनमोहन सिंह) | |

वर्ग 2—संसद सदस्य :

1. श्री कमल नाथ, लोक सभा
2. श्री चिन्तामणि पाणिग्राही, लोक सभा
3. एक संसद सदस्य, राज्य सभा

(यह नाम बाद में अधिसूचित किया जायेगा)

वर्ग 3—सरकारी विस्तीय संस्थाएं :

1. गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई
2. अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक
आफ इंडिया, बम्बई।

वर्ग 4—व्यापार तथा वाणिज्य संगठन :

1. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ इंडिया चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
2. अध्यक्ष, एसोसिएटड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, इंडियन जूट मिक्स एसोसिएशन, कलकत्ता।
4. अध्यक्ष फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली।

5. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ एसोसिएशनस आफ स्माल इंडस्ट्रीज आफ इंडिया, नई दिल्ली।

6. अध्यक्ष इंडियन काटन मिक्स फेडरेशन, बम्बई।

7. अध्यक्ष, एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, कलकत्ता।

8. अध्यक्ष, बागान संघों की सलाहकार समिति,

9. अध्यक्ष, इंडियन ड्रग्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, बम्बई।

10. अध्यक्ष, आल इंडिया शिपर्स काउंसिल, नई दिल्ली

11. अध्यक्ष, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास।

12. अध्यक्ष, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता।

वर्ग 5—धार्मिक तथा अन्यो के हित :

1. श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
नई दिल्ली।
2. श्री परमा नन्द टी पटेल,
72-बेलावस्ता, पेठार रोड, बम्बई।
3. डा. वाई. के. अलाग,
निदेशक, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ इक्नो-मिक्स, अहमदाबाद।
4. डा. वी. कुरियन,
अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द।
5. श्री मधुरावास एच. मेहता,
101, इन्द्रा भवन, बालकोवर रोड,
प्रबंध निदेशक, टाटा एक्सपोर्ट्स,
बम्बई।
6. श्री बी. नेहरू,
प्रबंध निदेशक, टाटा एक्सपोर्ट्स,
बम्बई।

वर्ग 6—अधिकारी :

1. सचिव, वाणिज्य विभाग।
2. सचिव, वस्त्र विभाग।
3. आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक
सी. वेन्कटरमन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE RESOLUTION

New Delhi, the 16th March, 1981

Subject: Central Advisory Council on Trade—Constitution of.

No. 3(1)/80-E. POL.—Union Resolution No. 6/8/75-ADC. dated the 25th September, 1976, the Government in the Ministry of Commerce had reconstituted the Board of Trade with effect from 1st October, 1976, and under Resolution No. 1/2/76-AD.C. dated the 22nd January, 1977, the Government had reconstituted the Advisory Council on Trade, for a tenure of two years with effect from 1st January, 1977. In 1978, it was decided that the Board of Trade and the Advisory Council on Trade should be abolished and in their place

a compact Body known as the Central Advisory Council on Trade consisting of representatives from different organisations, and individuals with business standing and expertise in the field of commerce should be constituted. Accordingly, a Central Advisory Council on Trade was constituted with effect from 15th February, 1978. Consequent upon the expiry of the term of the Council, a new Central Advisory Council on Trade has been reconstituted with effect from 13th March, 1981.

2. The terms of reference, constitution, etc., of the Central Advisory Council on Trade will be as under :—

Terms of Reference

The Central Advisory Council on Trade will advise the Government on matters relating to :

- (i) Export and import policy and programmes ;
- (ii) the operation of import and export trade controls ;
- (iii) organisation and development of commercial services; and
- (iv) organisation and expansion of export production.

Constitution

3. The Central Advisory Council will consist of 29 members as shown in the Schedule annexed. It will be presided over by the Minister of Commerce as Chairman and, in his absence, by the Minister of State for Commerce and Vice Chairman. The members of the Council will hold office for a period of two years with effect from 13th March, 1981.

4. The Council will have powers to co-opt additional members. The Chairman of the Council may also invite to the meetings of the Council, such other persons as may be considered necessary from time to time.

5. The Headquarters of the Council will be in New Delhi, but it may meet at any other place in India.

6. The Council will ordinarily meet twice a year.

7. The Chief Controller of Imports & Exports will be the Member-Secretary of the Council.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Vice-Chairman, Members of the Council, the Private Secretary and Military Secretary to the President, the Prime Minister's Office, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SCHEDULE

Members of the Central Advisory Council on Trade

Category I :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Minister of Commerce | Chairman |
| 2. Minister of State for Commerce | Vice-Chairman |
| 3. Member-Secretary, Planning Commission (Dr. Man Mohan Singh) | |

Category II—Members of Parliament :

1. Shri Kamal Nath, Lok Sabha
2. Shri Chintamani Panigrahi, Lok Sabha
3. One Member of Rajya Sabha

(This name will be notified later)

Category III—Government Financial Institutions :

1. Governor, Reserve Bank of India, Bombay.
2. Chairman, Industrial Development Bank of India, Bombay.

Category IV—Trade and Commerce Organisations :

1. President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi.
2. President, Associated-Chambers of Commerce and Industry of India, New Delhi.
3. President, Indian Jute Mills Association, Calcutta.
4. President, Federation of Indian Export Organisation, New Delhi.
5. President, Federation of Associations of Small Industries of India, New Delhi.
6. Chairman, Indian Cotton Mills Federation, Bombay.
7. President, Association of Indian Engineering Industries, Calcutta.
8. Chairman, Consultative Committee of Plantation Associations, Calcutta.
9. President, Indian Drugs Manufacturers Association, Bombay.
10. President, All India Shipper's Council, New Delhi.
11. Chairman, Handloom Export Promotion Council, Madras.
12. Chairman, Engineering Export Promotion Council, Calcutta.

Category V—Labour and other interests :

1. Shri Anand Gopal Mukherjee, Indian National Trade Union Congress, New Delhi.
2. Shri Parma Nand T. Patel, 72-Belavasta, Peddar Road, Bombay.
3. Dr. Y. K. Alag, Director, Sardar Patel Institute of Economics, Ahmedabad.
4. Dr. V. Kurien, Chairman, National Dairy Development Board, Anand.
5. Shri Mathuradas H. Mehta, 101, Indra Bhuvan, Wal-keshwar Road, Bombay.
6. Shri B. Nehru, Managing Director, Tata Exports, Bombay.

Category VI—Official :

1. Secretary, Department of Commerce.
2. Secretary, Department of Textiles.
3. Chief Controller of Imports and Exports—(Member-Secretary).

(Member-Secretary)

C. VENKATARAMAN, Addl. Secy.

